

## // आवेदन-पत्र का प्रारूप //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एस.एन.सी.यू) एवं सी.एल.एम.सी. (एम.जी.एम.) हेतु आवेदन पत्र।

स्टाफ नर्स/फिजियोथेरेपिस्ट/आडियोलाजिस्ट/साईकोलॉजिस्ट/स्पेशल एजुकेटर/सोशल वर्कर  
एवं सी.एल.एम.सी.मेनेजर के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

(आवेदन करने की अंतिम तिथि—25.02.2022 )

पद का नाम ..... ( आवश्यक एवं स्पष्ट रूप से भरें)  
दिनांक.....

प्रति,

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,  
स्वशासी संस्था, इन्दौर

आवेदक दिये गये  
बॉक्स में अपना  
फोटो चस्पा करें।

- **आवेदन शुल्क:**— आर.टी.जी.एस. रेट बैंक आफ इण्डिया एम.वाय.एच. केम्पस, इन्दौर  
IFSC :- SBIN0030359 Account No. 53003590071  
(M.G.M.Medical College,(Autonomous Society) Indore के नाम से जमा कर रसीद संलग्न करें।
- **स्टाफ नर्स :**— (अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से रु 500 /—तथा आरक्षित श्रेणी के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ई.डब्ल्यू.एस. से रु 300/-)
- **अन्य पदों हेतु :**— (अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से रु 500 )

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावें।

1. आवेदक का नाम .....
2. पुरुष/महिला .....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....

शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....

5. स्थाई पता.....

शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं.....

6. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....

7. आधार कार्ड नम्बर(हो तो)छायाप्रति संलग्न करें।.....

8. दिनांक 01.01.2022 को आवेदक की आयु..... दिन..... माह..... वर्ष

9. विवाह का दिनांक .....

10.वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /  
विकलांग ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की  
छायाप्रति संलग्न करें)

11. नर्सिंग / पैरामेडिकल काउन्सिल एवं का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....

12. सी.एल.एम.सी. मैनेजर के पद से संबंधित अहताओं के दस्तावेज की छायाप्रति .....

13. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रं	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1.							
2.							
3.							
4.							
5							

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरें)

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें।)

- 1 जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वी की अंकसूची
- 2 जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित श्रेणी के लिये है।)
- 3 स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
- 4 आधार कार्ड
- 5 विज्ञापित पद अनुसार शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 6 बैंक मे जमा किये गये आर.टी.जी.एस. की रसीद।
- 7 अन्य प्रमाण पत्र।

स्थान.....  
दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

- 1 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2 मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर.दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जाँच प्रचलन में नहीं है।
- 3 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दो पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
- 4 मुझ पर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर